



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15—अप्रैल 21, 2006 (चैत्र 25, 1928)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15—APRIL 21, 2006 (CHAITRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	पृष्ठ सं.	खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	347	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	333	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	477	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	1063
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	165
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	1243
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .....	361
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक .....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	347	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	333	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	477	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1063
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	165
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	1243
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	361
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2006

संकल्प

**विषय: इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।**

सं. 5(3)/2004-डी-1.(.) इस्पात और खान मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 1986 के अपने संकल्प सं.एससी-1(1)/86 डी-III के तहत इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद का गठन किया था जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, लोहा और इस्पात के उत्पादक और उपभोक्ता, भवन निर्माताओं और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्य केंद्र सरकार को लोहा और इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, गुणवत्ता और इनके बाजार रुख से संबंधित मामलों पर सलाह देना और सहायता करना है।

2. अब इस इस्पात उपभोक्ता परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. माननीय इस्पात मंत्री-----अध्यक्ष
2. माननीय इस्पात राज्य मंत्री-----उपाध्यक्ष
3. सचिव, इस्पात मंत्रालय-----सदस्य

### सदस्य

3. भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से एक प्रतिनिधि

1. रेल मंत्रालय
2. कोयला मंत्रालय
3. वाणिज्य विभाग
4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
5. विकास आयुक्त, लघु उद्योग (डीसीएसएसआई)
6. ऊर्जा मंत्रालय

7. राजस्व विभाग
8. खान मंत्रालय
9. संयुक्त सचिव (इस्पात विकास विंग प्रभारी), इस्पात मंत्रालय तथा अध्यक्ष, संयुक्त संयंत्र समिति, नई दिल्ली -----सदस्य-सचिव
4. राज्य सरकारों से सचिव/निदेशक (उद्योग) के स्तर वाला एक सरकारी प्रतिनिधि।
5. लोहा और इस्पात के मुख्य और प्रमुख उत्पादकों से एक प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक)
  1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
  2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
  3. टाटा स्टील लिमिटेड,
  4. एस्सार स्टील लिमिटेड,
  5. इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
  6. जेएसडब्ल्यू लिमिटेड,
6. निम्नलिखित उद्योग/संस्थाओं से एक प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक)
  1. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
  2. आल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन
  3. इंडियन स्टेनलैस स्टील डवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए)
  4. इंडियन स्टील अलाइन्स
  5. स्पंज आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसआईएमए)
  6. स्टील फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया
  7. स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
  8. आल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन
  9. आल इंडिया मिनी ब्लास्ट फर्नेस एसोसिएशन
  10. एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
  11. आल असम स्माल्स स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
  12. आल इंडिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन
  13. आल इंडिया स्मॉल स्केल ब्राइटबार मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
  14. आल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एआईआई)
  15. आल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन
  16. एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री
  17. एसोसिएशन ऑफ हाई टेंसिल फास्टनर्स मैनुफैक्चरर्स
  18. एसोसिएशन ऑफ इंडियन ड्रॉपफोर्जिंग एंड स्टैम्पिंग इंडस्ट्रीज
  19. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री (एआईएफआई)

20. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
21. ब्राइट स्टील मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
22. बकिट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
23. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
24. कास्ट आयरन स्पंज पाइप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
25. कोल्ड-रोल्ड स्टील मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओआरएसएमए)
26. कांफिड्रेशन ऑफ आल इंडिया ब्राइटबार मैनुफैक्चरर्स
27. कांफिड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
28. कौंसिल ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
29. इंजीनियरिंग एक्सपोट्स प्रमोशन कौंसिल (ईईपीसी)
30. फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया
31. फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स इंडस्ट्री (फिक्की)
32. फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज
33. इंडियन फाउंड्री एसोसिएशन
34. इंडस्ट्रियल फॉस्ट्रनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
35. इंडियन फैरोअलॉय प्रोड्सर्स एसोसिएशन
36. इंडियन टीनप्लेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
37. आयरन एंड स्टील स्क्रेप एसोसिएशन ऑफ इंडिया
38. लारसेन एंड टर्बो लिमिटेड
39. लोकार्बन फैरोअलॉयज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
40. लुधियाना इलैक्ट्रो प्लेटर्स एसोसिएशन
41. मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
42. नेशनल कॉंपरेटिव हाउसिंग फैडरेशन
43. नॉर्थ इस्टर्न स्टील फर्नेस एसोसिएशन
44. नॉर्थ इस्टर्न स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन
45. स्मॉल स्केल वैल्विंग इलैक्ट्रोड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
46. स्टील चैम्बर्स ऑफ इंडिया (एससीआई)
47. स्टील वॉयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
48. टिन प्लेट फैब्रीकैटर्स एसोसिएशन
49. हावड़ा फाउंड्री एसोसिएशन
50. ऊषा बैल्ट्रोन लिमिटेड
51. यूनाइटेड साइकिल्स एंड पार्ट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

7. प्रत्येक राज्य से इस्पात उपभोक्ताओं के दो प्रतिनिधि इस्पात मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे।

8. मीडिया से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों और कुछ विशेषज्ञों को शामिल करते हुए इस्पात मंत्रालय द्वारा 10 प्रतिनिधि नामित किए जाएंगे।

9. केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति को छोड़कर, इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्यकाल दो वर्ष होगा। मौजूदा इस्पात उपभोक्ता परिषद का कार्यकाल 30 अक्टूबर, 2006 तक है। इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी।

### आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. एफ.9-11/99-यू.3--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केरल कलामण्डलम, त्रिस्सूर, केरल को पांच वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम रूप से उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु एतद्वारा समविश्वविद्यालय घोषित करती है बशर्ते कि केरल कलामण्डलम द्वारा संगम ज्ञापन और नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया हो तथा उन्हें केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया हो तथा समविश्वविद्यालय के स्तर हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से उसके कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान मिल रहे हों।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**  
नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2006

**संकल्प**

सं० ई 11015/1/2004-हिन्दी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

**संरचना**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री       | अध्यक्ष |
| 2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री | सदस्य   |

**संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य**

- |  |       |
|--|-------|
| 3. डॉ० (श्रीमती) तेजस्विनी सीरमेश (लोक सभा),<br>न.7, दूसरा मुख्य मार्ग, जे.पी. नगर, तृतीय फेज,<br>बंगलौर - 560078, कर्नाटक | सदस्य |
| 4. श्री अनन्त कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा),<br>84, शाश्वती रानोजीराव मार्ग, बासवनगुडी, बंगलौर                               | सदस्य |
| 5. डॉ० (श्रीमती) प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य (राज्य सभा),<br>ए-137, कृष्णा मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान                   | सदस्य |
| 6. श्री फकीर चन्द मुलाना संसद सदस्य (राज्य सभा),<br>गांव व डाकखाना मुलाना, जिला अम्बाला, हरियाणा                           | सदस्य |

**संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य**

- |  |       |
|--|-------|
| 7. श्री मोहम्मद सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा),<br>1, बेलताला रोड, कोलकाता - 700026, पश्चिम बंगाल  | सदस्य |
| 8. श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा),<br>302, राजेन्द्र पथ, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश | सदस्य |

### मंत्रालय द्वारा नामित हिन्दी विद्वान

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 9.  | श्री अनिल कुमार पाण्डेय<br>बी-3 सीईएल अपार्टमेंट्स, बी-14,<br>वसुन्धरा इन्क्लेव, दिल्ली - 110096                           | सदस्य |
| 10. | श्री शुकदेव सिंह, प्रोफेसर (अवकाशप्राप्त), बीएचयू<br>कबीर विवेक, 171-बी, बृज इन्क्लेव, सुन्दरपुर,<br>वाराणसी, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 11. | प्रो० रामबुझावन सिंह<br>सतपरसा (मसौढ़ी) पटना   | सदस्य |
| 12. | श्री कृष्णचन्द्र शास्त्री<br>समृद्धि-559, रोशन नगर (सवीना),<br>उदयपुर - 313002   | सदस्य |

### केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 13. | श्री मोहन प्रकाश दुबे,<br>9/8, सेक्टर-1,<br>पुष्प विहार, नई दिल्ली - 110017 | सदस्य |
|-----|---|-------|

### अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 14. | सुश्री बी.एस. शांताबाई,<br>सचिव, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति,<br>178, फोर्थ मेन रोड,<br>चामराजपेट, बंगलौर - 560018, कर्नाटक | सदस्य |
|-----|---|-------|

### गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा मनोनीत सदस्य

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 15. | डॉ वेंकट लक्ष्मी कामेश्वरी,<br>नं. 408, आस्पिन टावर्स,<br>टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने,<br>विशाखापट्टनम - 530013 | सदस्य |
|-----|---|-------|



- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 16. | श्री प्रवीण वसंतराव पाटील,<br>द्वारा - जी.डी. देशमुख, 'कृष्णा'<br>प्लॉट नं. 75, प्रेमनगर, जलगांव - 425001<br>महाराष्ट्र | सदस्य |
| 17. | सौ. संगिता अशोक खडसे,<br>कविता निवास, जिला परिषद के सामने,<br>वाशिम, महाराष्ट्र ।                                       | सदस्य |

### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

- |     |                                 |            |
|-----|---------------------------------|------------|
| 18. | सचिव                            | सदस्य      |
| 19. | अपर सचिव                        | सदस्य      |
| 20. | संयुक्त सचिव (स.रक्षा व रा.भा.) | सदस्य-सचिव |
| 21. | संयुक्त सचिव (डी.डी.)           | सदस्य      |
| 22. | संयुक्त सचिव (पिछड़ा वर्ग)      | सदस्य      |
| 23. | संयुक्त सचिव (अ.जा.वि.)         | सदस्य      |

### राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 24. | सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार<br>के हिन्दी सलाहकार | सदस्य |
| 25. | संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग                            | सदस्य |

### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रतिनिधि

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 26. | सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 27. | सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 28. | सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली   | सदस्य |

समिति के कार्य, कार्यकाल और अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

पी. नारायण मूर्ति  
संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2006

सं. 2-4/2006-प्रशासन । श्री डी. सुरेश, भा.प्र.से.(हरियाणा : 95) को श्रीमती रेणुका चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव के पद से 2 मार्च, 2006 के अपराह्न से कार्य मुक्त कर दिए गए थे ।

सन्तोष कुमार दरगन  
अवर सचिव

दिनांक 28 मार्च 2006

सं. 4-9/2006-प्रशासन । राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.2.2006 के आदेश संख्या 4/22/2005- ई.ओ.(एम.एम.-I) के अनुसरण में, श्री के. राजेश्वर राव, आई.ए.एस. (मणिपुर-त्रिपुरा : 88) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 27.3.2006 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, 15,100-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एस. के. दरगन  
अवर सचिव

दिनांक 29 मार्च 2006

सं० 4-3/2006-प्रशासन । राष्ट्रपति, सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 13.2.2006 के कार्यालय आदेश सं० 12016/13/एस.ए.जी./05-06/2004 के अनुसार श्रीमती एस. जयालक्ष्मी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 28.2.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक, 18,400-500-22,400/-रुपए के वेतनमान में सांख्यिकीय सलाहकार नियुक्त करते हैं ।

एस. के. दरगन  
अवर सचिव

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 24th March 2006

**Resolution****Subject: Constitution of Steel Consumers' Council — regarding.**

No. 5(3)/2004-D-I (.) Vide Resolution no. SC-1(1)/86-D-III dated 31<sup>st</sup> January, 1986, Ministry of Steel & Mines had constituted a Steel Consumers' Council under the chairmanship of Minister for Steel & Mines consisting of representatives of the Government, producers and consumers of iron and steel, house builders and related industries. The functions of the Steel Consumers' Council is to advise and assist the Central Government on matters relating to supply, availability, quality and the market trend of iron and steel.

2. It has now been decided to re-constitute the Steel Consumers' Council as under:-

1. Hon'ble Minister for Steel .....Chairman
2. Hon'ble Minister of State for Steel..... Vice-Chairman
3. Secretary, Ministry of Steel ..... Member

**Members**

3. One representative from the following Ministries/Departments of Government of India

1. Ministry of Railways
2. Ministry of Coal
3. Department of Commerce
4. Department of Industrial Policy & Promotion
5. Development Commissioner for Small Scale Industries (DCSSI)
6. Ministry of Power
7. Department of Revenue
8. Ministry of Mines
9. The Joint Secretary (In-charge Steel Development Wing), Ministry of Steel & Chairman, JPC, New Delhi ----- **Member-Secretary**

4. One official representative from State Governments of the level of Secretary/Director (Industry).

5. One representative each of the main and major producers of iron and steel viz.

1. Steel Authority of India Limited,
2. Rashtriya Ispat Nigam Limited
3. Tata Steel Limited
4. ESSAR Steel Limited
5. Ispat Industries Limited
6. J S W Limited

6. A representative each of the following industry Associations:-

1. Alloy Steel Producers' Association of India
2. All India Steel Rerollers Association
3. Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA)
4. Indian Steel Alliance
5. Sponge Iron Manufacturers' Association (SIMA)
6. Steel Furnace Association of India
7. Steel Re-Rolling Mills Association of India
8. All India Induction Furnace Association
9. All India Mini Blast Furnace Association
10. Associated Chambers of Commerce & Industry of India
11. All Assam Small Scale Industries Association
12. All India Metal Forging Association
13. All India Small Scale Bright Bar Manufacturers' Association
14. All India Association of Industries (AIAI)
15. All India Manufacturers' Organization
16. Association of Indian Engineering Industry
17. Association of High Tensile Fasteners Manufacturers
18. Association of Indian Drop Forging and Stamping Industries
19. Association of Indian Forging Industry (AIFI)
20. Automotive Component Manufacturers' Association of India
21. Bright Steel Manufacturers' Association of India
22. Bucket Manufacturers' Association of India
23. Builders Association of India
24. Cast Iron Spun Pipe Manufacturers' Association
25. Cold Rolled Steel Manufacturers' Association of India (CORSMA)
26. Confederation of All India Bright Bar Manufacturers'
27. Confederation of Indian Industry
28. Council of Small Scale Industries Corporations of India
29. Engineering Exports Promotion Council (EEPC)
30. Federation of Association of Small Industries of India
31. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)
32. Federation of Indian Industries
33. Indian Foundry Association
34. Industrial Fasteners Association of India
35. Indian Ferro Alloy Producers' Association
36. Indian Tin Plate Manufacturers' Association
37. Iron and Steel Scrap Association of India
38. Larsen & Toubro Limited,
39. Low Carbon Ferro Alloys Manufacturers' Association
40. Ludhiana Electroplaters Association
41. Metal Scrap Trading Corporation Limited
42. National Cooperative Housing Federation
43. North Eastern Steel Furnace Association
44. North Eastern Steel Re-rollers Association
45. Small Scale Welding Electrode Manufacturers Association
46. Steel Chamber of India (SCI)

47. Steel Wire Manufacturers' Association of India
  48. Tin Plate Fabricators Association
  49. Howrah Foundry Association
  50. Usha Beltron Limited
  51. United Cycles & Parts Manufacturers Association
7. Two representatives of steel consumers from each State to be nominated by Ministry of Steel.
8. A total of 10 representatives, to include prominent media persons and few experts, to be nominated by the Ministry of Steel.
9. The tenure of the Steel Consumers' Council will be two years unless specifically extended by the Central Government. The tenure of the present Steel Consumers' Council is up to 30<sup>th</sup> October, 2006. The Steel Consumers' Council shall meet as and when required.

### **ORDER**

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

**AJAY KUMAR**  
Jt. Secy.

---

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th March 2006

No. F-9-11/99-U.3.—

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grant Commission, hereby declare the Kerala Kalamandalam, Thrissur, Kerala as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act, provisionally, for a period of five years, subject to the finalization of the Memorandum of Association and Rules by the Kerala Kalamandalam and their approval by the Central Government and, granting of the UGC's pay scales to its employees with effect from the date of submission of application for deemed to be university status.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 31st March 2006

RESOLUTION

N0.E. 11015/1/2004-Hindi. In partial modification of the Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution of even number dated 17-10-2005, the composition of the Samiti shall be as follows:

COMPOSITION

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Minister of Social Justice and Empowerment  | Chairperson |
| 2. | Minister of State for Social Justice and Empowerment  | Member      |
|    | <u>Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs</u>   |             |
| 3. | Dr. (Smt.) Tejashwini Seeramesh, M.P. (Lok Sabha)<br>No.7, 2 <sup>nd</sup> Main Road, J.P. Nagar, 3 <sup>rd</sup> Phase, Bangalore-560078 | Member      |
| 4. | Shri Ananth Kumar, M.P. (Lok Sabha)<br>84, Shashwati Ranojirao Marg, Basavanagudi, Bangalore  | Member      |
| 5. | Dr. Prabha Thakur, M.P. (Rajya Sabha)<br>A-137, Krishna Marg, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan  | Member      |
| 6. | Shri Fakir Chand Mulana, M.P. (Rajya Sabha)<br>Village & Post Office - Mulana, Distt. Ambala, Haryana                                     | Member      |

**Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language**

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 7. | Shri Mohd. Salim, M.P. (Lok Sabha)<br>1-Belatala Road, Kolkata-700026 (W.B)         | Member |
| 8. | Shri Udai Pratap Singh, M.P. (Rajya Sabha)<br>302, Rajendra Path, Shikohabad (U.P.) | Member |

**Hindi Scholars nominated by the Ministry**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 9.  | Shri Anil Kumar Pandey, B-3, CEL Apartments,<br>B-14, Vasundhara Enclave, Delhi-110096                 | Member |
| 10. | Shri Sukhdeo Singh,<br>Prof. (Retd.) BHU,<br>Kabir Vivek, 171-B, Brij Enclave, Sunderpur, Varansi (UP) | Member |
| 11. | Prof. Ram Bujhawan Singh,<br>Satparasa (Masouri), Patna (Bihar)  | Member |
| 12. | Shri Krishna Chandra Shastri, Samriddhi-559,<br>Roshan Nagar (Savina), Udaipur-313002                  | Member |

**Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad**

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 13. | Shri Mohan Prakash Dube, 9/8, Sector-1,<br>Pushp Vihar, New Delhi | Member |
|-----|---|--------|
- Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 14. | Ms. B.S. Shantabai<br>Secretary, Karnataka Mahila Hindi Sewa Samiti,<br>178, Fourth Main Road, Chamrajpet, Bangalore- 560018 | Member |
|-----|--|--------|

**Members nominated by the Department of Official  
Language (Ministry of Home Affairs)**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 15. | Dr. Venkat Laxmi Kameswari,<br>No.408, ASPEN Towers, Opposite Times of India,<br>Vishakhapatnam-530013 | Member |
| 16. | Shri Praveen Vasantrao Patil<br>C/o G.D. Deshmukh, 'Krishna',<br>Plot No.75, Premnagar, Jalgaon-425001 | Member |
| 17. | Ms. Sangita Ashok Khadse,<br>Kavita Niwas, Opposite District Council,<br>Vashim (Maharashtra)          | Member |

**Representatives of the Ministry of Social Justice and Empowerment**

- |     |                              |                  |
|-----|------------------------------|------------------|
| 18. | Secretary                    | Member           |
| 19. | Additional Secretary         | Member           |
| 20. | Joint Secretary (S.D.&O.L.)) | Member-Secretary |
| 21. | Joint Secretary (DD)         | Member           |
| 22. | Joint Secretary (BC)         | Member           |
| 23. | Joint Secretary (SCD)        | Member           |

**Representatives from the Department of Official Language**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 24. | Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India | Member |
| 25. | Joint Secretary, Department of Official Language                                   | Member |

**Representatives from the offices under the Ministry of Social Justice & Empowerment.**

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 26. | Secretary, National Commission for Scheduled Castes, New Delhi.  | Member |
| 27. | Secretary, National Commission for Safai Karamcharis, New Delhi. | Member |
| 28. | Secretary, National Commission for Backward Classes, New Delhi.  | Member |

Functions, tenure and other terms & conditions of the committee shall remain the same.

P. NARAYANA MURTY  
Jt. Secy.



## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 23rd March 2006

**No.2-4/006-Admn.** Shri D.Suresh, IAS (HY:95) was relieved from the post of Private Secretary to Smt.Renuka Chowdhury, Minister of State (Independent Charge), Ministry of Women and Child Development from the afternoon of 2<sup>nd</sup> March, 2006.

S. K. DARGAN  
Under Secy.

---

The 28th March 2006

**No.4-9/2006-Admn.** The President is pleased to appoint Shri K. Rajeswara Rao, IAS(MT:88), as Director in the scale of pay of Rs.15,100-400-18,300/- in the Ministry of Women & Child Development w.e.f. the forenoon of 27.3.2006 for a period of 5 years or until further orders, in pursuance of DOPT's Order No.4/22/2005-EO(MM-I), dated 28.2.2006.

S. K. DARGAN  
Under Secy.

The 29th March 2006

**No.4-3/2006-Admn.** The President is pleased to appoint Smt. S. Jeyalakshmi as Statistical Adviser in the Ministry of Women & Child Development in the scale of pay of Rs.18,400-500-22,400/- w.e.f. the forenoon of 28.2.2006 until further orders, in terms of the Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No.12016/13/SAG/05-06/2004 dated 13.2.2006.

S. K. DARGAN  
Under Secy.